



डॉ. सुनील गोयल

जैविक खाद का काम, जल की बचत के साथ ही ही दे पौधों को नई जान

फर्टिलाइजर व रसायन से होने वाले इन दुष्प्रभावों को खत्म करने के लिए जरूरी है कि पुनः पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अपनाया जाए। इन पारंपरिक तरीकों में मुख्य रूप से शामिल है जैविक खाद का प्रयोग। जैविक खाद ना सिर्फ मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है, बल्कि मिट्टी के प्राकृतिक गुणों को दीर्घकालीन स्तर पर बनाए रखती है। इससे भूमि की उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है। अतः जैविक खाद ना सिर्फ फसलों व पौधों के लिए उपयोगी है, बल्कि यह पर्यावरण व मिट्टी की मौलिकता को भी कायम रखने में सक्षम है।

आज के दौर की कृषि पद्धति काफी आधुनिक हो गई है। जिस रफ्तार से कृषि में आधुनिकता का समावेश किया जा रहा है उससे किसानों को लारित फायदे प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन, इन झटपट फायदे के फेर में वे कई दीर्घकालीन समस्याओं को निमंत्रण दे रहे हैं। अधिक से अधिक पैदावार हासिल करने के लिए निरंतर प्रयोग किए जा रहे हैं फर्टिलाइजर व रसायन

मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को समाप्त कर रहे हैं। मिट्टी की उर्वरकता में गिरावट के चलते ही भूक्षण जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। यही नहीं इस प्रकार की अजैविक खाद अप्रत्यक्ष रूप से भोजन-चक्र में शामिल होकर मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित होती है।

फर्टिलाइजर व रसायन से होने वाले इन दुष्प्रभावों को खत्म करने के लिए जरूरी है कि पुनः पारंपरिक

कृषि पद्धतियों को अपनाया जाए। इन पारंपरिक तरीकों में मुख्य रूप से शामिल है जैविक खाद का प्रयोग। जैविक खाद ना सिर्फ मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है, बल्कि मिट्टी के प्राकृतिक गुणों को दीर्घकालीन स्तर पर बनाए रखती है। इससे भूमि की उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है। अतः जैविक खाद ना सिर्फ फसलों व पौधों के लिए उपयोगी है, बल्कि यह पर्यावरण व मिट्टी की मौलिकता को भी कायम रखने में सक्षम है।

जैविक खाद क्या है?

प्राकृतिक चीजों से तैयार की गई खाद को जैविक खाद कहते हैं। जैविक खाद इसलिए प्रयोग की जाती है ताकि फसलों व पेड़-पौधों के उसी स्वरूप में पोषक तत्व प्राप्त होते रहें, जिस प्रकार वे पर्यावरण या मिट्टी से हासिल करते हैं। जैविक खाद विभिन्न माध्यमों से तैयार की जा सकती है। इनमें मुख्य है गोबर खाद जो कि पशुओं के मल से प्राप्त होती है। गाय, भैंस व बकरी के मल को सामान्यतः गोबर खाद के तौर पर अधिक प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा कम्पोस्ट, वर्मिकम्पोस्ट से भी खाद तैयार की जाती है। खेतों में मौजूद फसलों के बचे हुए फूट भी मिट्टी में मिलने पर खाद का काम करते हैं।

फसलों की बेहतर पैदावार के लिए जैविक खाद किस प्रकार फायदेमंद है? जैविक खाद मिट्टी में मौजूद जैविक तत्वों की बढ़ोत्तरी करती है तथा इन्हीं जैविक तत्वों द्वारा पौधों को भोजन प्राप्त होता है। साथ ही यह जैविक अम्ल उत्पन्न करती है, जिससे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व मुल जाते हैं। मिट्टी में युते हुए इन्हीं पोषक तत्वों पर पौधे जीवित रहते हैं। इसलिए पौधों के विकास के लिए जैविक खाद काफी फायदेमंद होती है। इसके अलावा जैविक खाद से मिट्टी में पानी को बांधे रखने की क्षमता में भी बढ़ोत्तरी होती है। अतः जैविक खाद पर ना सिर्फ पौधों का विकास निर्भर करता है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी यह बेहतर करती है।

जैविक खाद से पौधों को कितनी मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं?

विभिन्न प्रकार की जैविक खाद पौधों को अलग-अलग मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। औसत गुणवत्ता वाली गोबर की खाद से प्रति टन 12 किलो पोषक तत्व हासिल किए



फसलों की अच्छी पैदावार के लिए गोबर खाद सर्वश्रेष्ठ है

जा सकते हैं। जबकि कम्पोस्ट खाद द्वारा प्रति टन 40 किलो पोषक तत्व प्राप्त किए जाते हैं।

विभिन्न प्रकार की जैविक खाद

गोबर खाद

गोबर खाद बेहद आसानी से बनाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए घर की गाय-भैंस का गोबर लिया जाता है तथा उसमें चारे का कचरा या धासफूस मिला दिया जाता है। यह खाद फसलों की बेहतर पैदावार के लिए सर्वश्रेष्ठ है।

कम्पोस्ट खाद

कम्पोस्ट खाद एक प्रकार की जैविक खाद है जिसे बहुत सरलता से तैयार किया जाता है। यह खाद पशुओं के गोबर, पेड़-पौधों की सूखी पत्ती-टहनी, खेतों में फसलों के बाद

का कचरा जैसे धासफूस, पुआल आदि को मिलाकर तैयार की जाती है। इसके अलावा घर की रसोई से निकलने वाले सब्जी के कचरे-छिलके व झूठन आदि को भी इसमें प्रयोग किया जाता है।

यानी इसमें तमाम तरह की जैविक चीजों का प्रयोग किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो सकती हैं। कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिए हमें केवल एक आयताकार या गोलाकार गड्ढा खोदना होता है जो 3 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा होता है। इसकी लंबाई जरूरत के अनुसार तय की जा सकती है। गड्ढा खोदने के बाद इसमें नियमित रूप से जैविक कचरा डालते रहें। गड्ढे के पूरा भर जाने पर उस पर मिट्टी से अच्छी तरह लेप करके उसे बंद कर दें। लेप सही प्रकार करें ताकि हवा गड्ढे के अंदर ना जा सके। लेप करने के बाद गड्ढे पर नियमित रूप

से पानी का हल्का छिड़काव करते रहें। यह छिड़काव महीने भर तक करें। लगभग 2-3 माह के बाद गड्ढे में खाद तैयार हो जाएगी।

हरी खाद

हरी खाद वह जैविक खाद है जिसे वनस्पतियों से तैयार किया जाता है। हरी खाद में सबसे फायदेमंद है नीम से बनी खाद। नीम खाद को तैयार करने के लिए जरूरत है इसके फल व बीज की। नीम के फल व बीज को दबाकर पहले उनका तेल निकाल लिया जाता है। तेल के निकल जाने के बाद पीछे बचा हुआ कचरा बतौर नीम खाद में इस्तेमाल किया जाता है।

की पैदावार को बढ़ाने में भी मदद करती है। इसे सामान्यतः गोबर या यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है। नीम खाद को मिट्टी में सीधे भी मिलाया जा सकता है। यही नहीं इसके प्रयोग से मिट्टी में हवा की मौजूदगी बढ़ती है, जिससे पौधों की जड़ों का तेजी से विकास संभव हो पाता है। सामान्यतः गोबर खाद की तुलना में नीम खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें गन्धक तत्वों की मात्रा अधिक होती है।

महत्व क्यों?

मिट्टी व पौधों को उचित मात्रा में निम्न तत्व मिलने चाहिए, क्योंकि -



हरी खाद मिट्टी की क्षारीयता को नियंत्रित करती है



कम्पोस्ट खाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है

नीम खाद के प्रयोग से मिट्टी की जैविक गुणवत्ता व उसकी संरचना बेहतर होती है। इस खाद से मिट्टी के पानी को बांधे रखने की क्षमता में भी बढ़ाती है। मिट्टी की क्षारीयता भी इसके प्रयोग से नियंत्रित की जा सकती है। नीम खाद फसलों

नाइट्रोजन - पौधे के विकास में नाइट्रोजन सबसे अहम तत्व है। इसकी मौजूदगी में पौधे सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नाइट्रोजन की कमी से पौधे का विकास धीमा होता है।

पोटेशियम - पोटेशियम से पौधों में गर्भी, ठंड, सूखा, कीट-फफूंद आदि से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पोटेशियम पत्तियों से पानी को उड़ने से रोकता है जिससे उनमें सूखे से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।

जैविक खाद का काम...

नीम से जैविक छिड़काव तैयार करने के लिए इनकी पत्तियों का एक घोल तैयार किया जाता है। घोल तैयार करने के लिए पत्तियों को पानी में करीब 12-15 घंटे के लिए डाल दिया जाता है। लंबे समय तक भीगे रहने के कारण पत्तियां जीवाणुओं से लड़ने वाले अपने गुण पानी में छोड़ देती हैं। इसी पानी को फिर फसलों व पेड़-पौधों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है तथा इससे छिड़काव भी कर सकते हैं। नीम धुले इस पानी से इल्ली, टिड़ी, दीमक व अन्य कीट फसलों में नहीं लगते हैं।

कैल्शियम - कैल्शियम से मिट्टी का रासायनिक संतुलन बना रहता है, मिट्टी का खारापन कम होता है और पानी का मिट्टी में रिसाव बेहतर करता है।

फास्फोरस - फास्फोरस एक मुख्य पोषक तत्व है जो पौधों में सूखे से प्राप्त कर्जा का प्रवाह व उसके भंडारण को सुनिश्चित करता है। इसकी मौजूदगी से जड़ों का विकास बेहतर होता है और फलों की गुणवत्ता बढ़ती है। यह जीवाणुओं से लड़ने में भी मदद करता है।

मैग्नीशियम - मैग्नीशियम भी पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। साथ ही पौधों में अन्य विकास प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है।

नीम पत्तियों के फायदे

नीम से खाद तैयार करने के अलावा इससे जैविक छिड़काव भी किया जा सकता है। नीम की पत्तियों में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो जीवाणुओं से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। इसी प्रतिरोधक क्षमता के कारण इन्हें फसलों को कीड़े आदि



नीम खाद जीवाणुओं से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता रखती है

से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

नीम से जैविक छिड़काव तैयार करने के लिए इनकी पत्तियों का एक घोल तैयार किया जाता है। घोल तैयार करने के लिए पत्तियों को पानी में करीब 12-15 घंटे के लिए डाल दिया जाता है। लंबे समय तक भीगे रहने के कारण पत्तियां जीवाणुओं से लड़ने वाले अपने गुण पानी में छोड़ देती हैं। इसी पानी को फिर फसलों व पेड़-पौधों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है तथा इससे छिड़काव भी कर सकते हैं। नीम धुले इस पानी से इल्ली, टिड़ी, दीमक व अन्य कीट फसलों में नहीं लगते हैं।

नीम के पानी को तैयार करने के लिए सामान्यतः 5 लीटर पानी में 1 किलो हरी नीम पत्तियों की जरूरत होती है। अगर इस पानी को खेतों में देना है तो 6.25 वीघा भूमि के लिए 80 किलो पत्तियों की जरूरत पड़ेगी। नीम पत्तियों के उपयोग से भंडारित अनाज को भी कीड़ों व फफूंद से बचाया जा सकता है। इसके लिए नीम की सूखी पत्तियों को गेंहूं, चावल या अन्य किसी भी अनाज के बीच में डाल दें। प्रभावी नतीजों के लिए हर 2-3 महीनों में

पत्तियों को जरूर बदलते रहें।

नीम से प्राप्त मुख्य फायदे

- सभी प्रकार की फसलों व मिट्टी पर यह एक जैविक खाद व कीट नियंत्रक के तौर पर कार्य करती है।

- पौधों की जड़ों को गोलकृमि, सफेद चीटी व अन्य कीटों से बचाती है।

- मिट्टी की गुणवत्ता व उसकी स्थिति को पूर्णतः सुधार देती है और सूखे के दौरान मिट्टी की रक्षा करती है।

- फसलों की पैदावार को बढ़ाती है।

- किसी भी फसल की बेहतर पैदावार के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है।

- नीम खाद नाइट्रोजन का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। यदि नीम खाद को फसलों में डाला जाए तो यह नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है। नाइट्रोजन की कमी नीम खाद द्वारा पूरी होने से किसानों को फसलों में अधिक फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता है।

गौचर विकास में नीम का प्रयोग

सिल्वी पेस्चौर मॉडल के तहत गौचर भूमि में लगाई जा रही धामण धास व पौधारोपण के स्वस्थ विकास के लिए नीम की मदद ली जा सकती है। विकसित की जा रही गौचर भूमि पर निर्मित कच्चे टांकों में ग्रामवासी नीम की पत्तियों को डाल सकते हैं। इससे टांके के पानी में जैविक गुण आ जाएंगे। इस पानी को धास व पौधों में डालने से कीड़े, फफूंद व दीमक नहीं लगेंगी। यानी नीम की पत्तियों से जैविक छिड़काव तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जब धामण के बीजों की बुवाई की जाए तो ट्रैक्टर के पीछे नीम की पत्तियों को बांध दें। इससे खेत में नीम की पत्तियों की बुआर लग जाएगी और पत्तियों के मिट्टी में मिलने से जीवाणुओं में कमी आएगी।

संपर्क करें:

डॉ. सुनील गोयल
शासकीय महाविद्यालय अंजड,

जिला-बड़वानी, मध्य प्रदेश

पिन-451 556

मो.नं. 09425382228

ईमेल: sunilgoyal1967@gmail.com